



## मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस वर्ष "सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)" विषय-वस्तु के साथ 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि, कोरोना वाइरस महामारी के कारण हमलोग इन दिनों विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फिर भी समय-समय पर जारी भारत सरकार के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन के साथ हम सभी इसे व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों को एक बड़े आकार में सामान्य लोगों की सक्रिय प्रतिभागिता बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आम जनता को अधिक सतर्क बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) के अनुपालन से नागरिकों में भ्रष्टाचार से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता के साथ उनके उन्मूलन के लिए किए जाने वाले बड़े प्रयासों की जानकारी मिलती है। कार्य में एकरूपता बनाए रखना कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है चूंकि इससे खुले तथा सकारात्मक कार्य परिवेश का वातावरण तैयार होता है तथा एक निर्णय लेने में नैतिक पहल का समावेश होता है। यह महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी इन मूल्यों को आत्मसात करे जिससे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिल सके। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दंडात्मक, निवारणात्मक तथा प्रतिभागितापूर्वक सतर्कता शामिल करते हुए भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन द्वारा आमजीवन में अखंडता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही हेतु जन आंदोलन संचालित करते हुए बहु-आयामी पहल अपनाया है। आमजीवन में अखंडता का मूल्य भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता के लक्ष्य में परिलक्षित होता है और इसे केवल विविध गतिविधियों के माध्यम से जनता को सतर्क बनाने तथा उनके बीच जागरूकता लाने के जरिए ही संभव है।

विगत वर्ष की तरह, हम इस वर्ष भी भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य सहित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन कर रहे हैं। पारदर्शिता लाने, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्राप्त करने की नीति के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न तरह की कार्यकलाप आयोजित किये गए हैं। आयोग के अध्यादेश को भौतिक स्तर के साथ-साथ भावनात्मक स्तर पर आत्मसात करने के लिए मैं सभी कर्मचारियों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम में सक्रियता पूर्वक सहयोग करने का आग्रह करता हूँ।

मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में आयोजित किए जाने वाले कार्यकलापों की सफलता की कामना करता हूँ। आइए, हम सभी भ्रष्टाचार के तिमिर को नष्ट करते हुए "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" के निर्माण में कंधे-से कंधा मिलाकर सक्रियतापूर्वक सहभागिता सुनिश्चित करें।

शंकर लाल भलोटिया